

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-सिधारी**372 पुड़िया व 350 ग्राम हेरोइन के साथ (अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रुपये) हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, 05 अदद मोबाइल, 01 अदद मोटरसाइकिल तथा 5750/- रुपये बरामद**

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री मनोज तिवारी द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जनपद-आजमगढ़ में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रो० त्रिवेणी सिंह के निर्देशन के तहत पुलिस अधीक्षक नगर श्री कमलेश बहादुर सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री इलामारन जी के कुशल पर्वेक्षण में दिनांक 05.05.2019 को सिधारी पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। प्रभारी निरीक्षक सिधारी श्री अनिल सिंह मय हमराही फोर्स के द्वारा नरौली तिराहे पर अवैध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध सामग्रियों की बरामदगी हेतु सघन चेंकिंग कर रहे थे कि वही पर प्रभारी स्वाट टीम उ०नि० श्री विपिन कुमार मय हमराह व उ०नि० बीरेन्द्र मिश्रा मय हमराह व सर्विलांस प्रभारी उ०नि० कमल नयन दुबे भी आ गये। हम पुलिस वाले आपस में अपराध एवं चुनाव में अवैध सामग्री ले जाने के विषय में बातचीत किया जा रहा था। कि इसी बीच मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति मोटर साइकिल से हेरोईन लेकर आ रहा है। यदि जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। मुखबीर की सूचना पर मय पुलिस टीम तत्काल कार्यवाही करते हुए बेलईसा ओवरब्रीज के पास पहुँचे तभी एक व्यक्ति मोटर साइकिल से आता दिखाई दिया। मुखबीर ईशारा करके हट गया। हम पुलिस वाले जब उसको टार्च रोशनी जलाकर रुकने का इशारा किया गया कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति एकाएक गाड़ी मोड़कर भागना चाहा परन्तु मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। हम पुलिस वाले शीघ्रता कर दौड़ाकर एक बारगी घेरकर पकड़ लिए, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो वह व्यक्ति अपना नाम निरकेश यादव उर्फ निलेश उर्फ मिलकेश पुत्र सा० रामचन्द्र यादव सा० कोटवा थाना रानी की सराय आजमगढ़ बताया पीछे मुड़कर भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मैं कुछ हेरोईन लिया हूँ पकड़े जाने के डर से भागना चाहा कि आप लोग पकड़ लिये। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास से हेरोईन की 372 छोटी-छोटी पुड़िया तथा पाउडर जिसका वजन करने पर 350 ग्राम, नगद 5750/- रुपये, 05 अदद मोबाइल, व एक अदद मोटरसाइकिल स्पेलन्डर प्लस के साथ गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मुझको यह हेरोईन गुड्डू उर्फ रामकेश यादव पुत्र राम चन्द्र यादव निवासी कोटवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ कहीं से लाकर देते है। मैं इनकी पुड़िया बनाकर एक पुड़िया 100 रुपये में बेचता हूँ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 118/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. निरकेश यादव उर्फ निलेश उर्फ मिलकेश पुत्र सा० रामचन्द्र यादव सा० कोटवा थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी

1. बरामदगी 350 ग्राम (372 पुड़िया हेरोईन)
2. नकद 5750 रुपये
3. 05 अदद मोबाइल अलग अलग कम्पनी का
4. 01 अदद मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस

फरार अभियुक्त का नाम व पता -

1. बबलू यादव उर्फ राकेश पुत्र रामचन्द्र यादव सा० कोटवा थाना रानी की सराय

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 118/19 धारा 8/21 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अनिल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ०नि० विपिन कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम
3. उ०नि० बीरेन्द्र कुमार सिंह स्वाट टीम आजमगढ़
4. उ०नि० कमल नयन दुबे प्रभारी सर्विलांस जनपद आजमगढ़
5. हे०का० नथुनी सिंह थाना सिधारी
6. हे०आ० अमित गुप्ता थाना सिधारी
7. हे०का० सुरेन्द्र यादव स्वाट टीम आजमगढ़
8. का० अवधेश सिंह स्वाट टीम आजमगढ़
9. का० अभिमित तिवारी स्वाट टीम आजमगढ़
10. का० विनोद सरोज स्वाट टीम आजमगढ़
11. का० औरंगजेब खाँ स्वाट टीम आजमगढ़
12. का० मनीष सिंह स्वाट टीम आजमगढ़
13. का० राजू सिंह स्वाट टीम आजमगढ़

14. का0 अनुज सिंह स्वाट टीम आजमगढ़

15. का0 सतेन्द्र यादव स्वाट टीम आजमगढ़

16. का0 चन्द्रजीत यादव स्वाट टीम आजमगढ़

नोट- उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।